

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र  
Delhi Gazette



सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-15032024-253079  
SG-DL-E-15032024-253079असाधारण  
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

|         |   |                            |
|---------|---|----------------------------|
| सं. 91] | दिल्ली, सोमवार, मार्च 11, 2024/फाल्गुन 21, 1945 | [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 465 |
| No. 91] | DELHI, MONDAY, MARCH 11, 2024/PHALGUNA 21, 1945 | [N. C. T. D. No. 465       |

भाग IV  
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

जन शिकायत आयोग

(स्थापना शाखा)

अधिसूचना

दिल्ली, 11 मार्च, 2024

फा. सं. 3(707)/पीजीसी/स्था0/2022/भर्ती नियम/एस सी डी/6822-6826—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं0 जी0एस0आर0 840 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, सेवा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से पूर्व परामर्श के पश्चात, एतद्वारा जन शिकायत आयोग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में "स्टाफ कार चालक (सामान्य ग्रेड)" के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्

- संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :— (i) इन नियमों को "स्टाफ कार चालक (सामान्य ग्रेड) भर्ती नियमावली" कहा जाए।  
(ii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. अनुप्रयोग : ये नियम इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 1 में विनिर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे।
3. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर :— पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. भर्ती पद्धति, आयु—सीमा तथा अन्य योग्यताएँ इत्यादि :— उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु—सीमा, योग्यताएँ एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
5. अयोग्यता :— वह व्यक्ति,  
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है ; या विवाह की संविदा की है; अथवा  
(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, तो वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।  
शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार है, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।
6. शिथिल करने की शक्ति :— जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए तथा सेवा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के परामर्श से, आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इस नियमों के किसी भी उपबंध को छूट दे सकती है।
7. बचाव :— इन नियमों में सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिक अथवा अन्य किसी विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु—सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

### अनुसूची

जन शिकायत आयोग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार में स्टाफ कार चालक के पद हेतु भर्ती नियम

|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
| 1. | पदनाम  | : | स्टाफ कार चालक (सामान्य ग्रेड)   |
| 2. | पदों की संख्या   | : | 02* (2023)<br>*परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर   |
| 3. | वर्गीकरण   | : | सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह— 'ग', अराजपत्रित, अलिपिकीय  |
| 4. | वेतन मैट्रिक्स में स्तर  | : | वेतन मैट्रिक्स में स्तर — 2 (रुपये 19900—63200 /—)   |
| 5. | क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद                                     | : | लागू नहीं  |
| 6. | सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा                        | : | 18—25 वर्ष*<br>(केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसरण में विभागीय उम्मीदवारों के लिए 40 वर्ष तक शिथिलनीय।)<br>टीप :— आयु सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविज्ञापित होगी।<br>*यदि अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता द्वारा पदों को भरा जाना है, तो आयु — सीमा 18—27 वर्ष के बीच होगी।          |
| 7. | सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ | : | अनिवार्य :<br>1. दसवीं कक्षा उत्तीर्ण हो।<br>2. मोटर कार हेतु वैद्य ड्राइविंग लाइसेंस रखता हो।<br>3. मोटर तंत्र की जानकारी (उम्मीदवार को वाहन में मामूली खराबी को दूर करने में सक्षम होना चाहिए।)<br>4. मोटर कार चालक का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव हो।<br>वांछनीय : होम गार्ड/ नागरिक स्वयंसेवक के रूप में 3 वर्ष की सेवा।<br>टीप 1 :— अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में, |

|     |  |   |
|-----|--|---|
|     |  | योग्यताएँ सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है।<br><b>टीप :-</b> यदि चयन की किसी अवस्था में सक्षम प्राधिकारी के अभिमत से अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधि योग्यता (योग्यताएँ) सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है।   |
| 8.  | क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।                        | : लागू नहीं   |
| 9.  | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है  | : सीधी भर्ती के लिए 02 वर्ष   |
| 10. | भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत | : प्रतिनियुक्ति समावेशन जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा   |
| 11. | यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन किया जाना है                               | : <b>प्रतिनियुक्ति/समावेशन :</b><br>(क) (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारी।<br>अथवा<br>(ii) कार्यालय जहां रिक्ति है, में तीन वर्षों की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 1 (रुपये 18000-56900/-) के समूह "ग" कर्मचारियों में से जिसके न होने पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश में तीन वर्षों की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर -1 (रुपये 18000-56900/-) के समूह "ग" कर्मचारियों में से तथा मोटर कार चलाने की सक्षमता का आंकलन करने के लिए वाहन चालक परीक्षा के आधार पर।<br>तथा<br>(ख) कॉलम संख्या 7 में यथानिर्धारित निम्नलिखित योग्यता तथा अनुभव रखता हो।<br><b>टीप 1:-</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि में केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी।<br><b>टीप 2:-</b> प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी। |
| 12. | यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है?   | : समूह "ग" विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण के विचारार्थ)<br>1. प्रधान सचिव/सचिव (श्रम) - अध्यक्ष<br>2. संबंधित विभागाध्यक्ष - सदस्य<br>3. उप-सचिव (सेवाएं) - सदस्य<br><br><b>टीप :-</b> यदि विभागीय स्थायीकरण समिति का अधिसूचित अध्यक्ष विभागीय स्थायीकरण समिति के किसी भी अन्य सदस्य से कनिष्ठ है, तो विभागीय स्थायीकरण समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।   |

|    |  |   |           |
|----|--|---|-----------|
| 13 | वे परिस्थितियों जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है। | : | लागू नहीं |
|----|--|---|-----------|

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

अनिल कुमार सिंह, प्रधान सचिव (प्रशासनिक सुधार)

**PUBLIC GRIEVANCES COMMISSION**  
(Establishment Branch)

**NOTIFICATION**

Delhi, 11th March, 2024

**No. F.3(707)/PGC/Estt./2022/RRs/SCD/6822-6826.**—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India read with the Government of India, Ministry of Home Affairs notification number G.S.R. 840 dated 13<sup>st</sup> July 1959, the Lieutenant Governor, National Capital Territory of Delhi, after prior consultation with the Services Department, GNCTD hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of “**STAFF CAR DRIVER**” (Ordinary Grade) in the Public Grievances Commission, Govt. of NCT of Delhi., namely:-

- Short title and commencement:** (i) These rules may be called “**STAFF CAR DRIVER (ORDINARY GRADE) RECRUITMENT RULES**” (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.
- Application:** These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.
- Number of Posts, classification and Level in the Pay Matrix:-** The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age limit and other qualification, etc:-** The method of recruitment to the said post, age limit, qualification and other matter relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said schedule.
- Disqualification:** No person:
  - Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
  - Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personnel law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other ground for so doing exempt any person from the operation of this rule.

- Power to relax:-**Where the Government is of the opinion that it is necessary expedient so to do, it may by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Services Department, GNCTD, relax any of the provisions of this rule with respect of any class or category of persons.
- Saving:-** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concession required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen or any other special category of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

## SCHEDULE

**RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF STAFF CAR DRIVER IN PUBLIC GRIEVANCES  
COMMISSION, GOVT. OF NCT OF DELHI**

| Name of the post  | Number of Post  | Classification  | Level in Pay Matrix                          | Whether selection or Non-Selection Post  |
|---|---|---|--|--|
| (1)   | (2)   | (3)   | (4)  | (5)  |
| STAFF CAR DRIVER (ORDINARY GRADE)   | 02*(2023)<br>*subject to variation depend on work-load  | General Central Service Group 'C'<br>Non- Gazetted, Non Ministerial                                       | Level-2 (Rs. 19900-63200/) of the Pay Matrix | Not applicable   |
| AGE LIMIT FOR DIRECT RECRUITS   | EDUCATIONAL AND OTHER QUALIFICATION REQUIRED FOR DIRECT RECRUITS  | WHETHER AND EDUCATIONAL QUALIFICATION PRESCRIBED FOR DIRECT RECRUITS WILL APPLY IN THE CASE OF PROMOTEEES | PERIOD OF PROBATION IF ANY                   | METHOD OF RECRUITMENT WHETHER BY DIRECT RECRUITMENT OR BY PROMOTION OR BY DEPUTATION/ ABSORPTION AND PERCENTAGE OF THE VACANCIES TO BE FILLED BY VARIOUS METHODS |
| (6)   | (7)   | (8)   | (9)  | (10)   |
| 18-25 YEARS*<br>(Relaxable for departmental candidate upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)<br><br><b>Note:</b> The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by DSSSB/Competent Authority.<br><br>*In case of post being filled up by all-India Open Competition, the age limit would be | <b>Essential:</b><br>1. Pass in 10 <sup>th</sup> Standard<br>2. Possession of a valid Driving License for Motor Cars.<br>3. Knowledge of Motor mechanism The candidate should be able to remove minor defects in Vehicle).<br>4. Experience of Driving a Motor Car for at least three years.<br><b>Desirable:</b><br>Three years' service as Home Guard/Civil Volunteers.<br><b>Note 1:</b><br>Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well | Not applicable  | Two years for Direct recruits                | Deputation absorption failing which by direct recruitment  |

|                               |   |  |  |  |
|-------------------------------|---|--|--|--|
| between 18 years and 27 years | <p>qualified.</p> <p><b>Note:</b><br/>The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</p> |  |  |  |
|-------------------------------|---|--|--|--|

| IN CASE OF RECRUITMENT BY PROMOTION/DEPUTATION/ABSORPTION/GRADES FROM WHICH PROMOTION/DEPUTATION ABSORPTION TO BE MADE  | IF A DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE EXISTS WHAT IS ITS COMPOSITION  | CIRCUMSTANCES IN WHICH UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION IS TO BE CONSULTED IN MAKING RECRUITMENT |
|---|---|---|
| (11)  | (12)  | (13)  |
| <p><b>Deputation/Absorption:</b></p> <p>(a)(i) Holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department<br/>Or<br/>(ii) From amongst Group C employees in Level-1 (18000-56900/-) in Pay Matrix with three years of regular service in the office where vacancy arises failing which from Group C employees in Level-1 (18000-56900/-) in Pay Matrix with three years of regular service in Central Government/State Government/UT territories and on the basis of a driving test to assess the competence to drive motor cars.<br/>and<br/>(b) possessing the following qualification and experience as prescribed in Column No. 7</p> <p><b>Note 1:</b><br/>The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/Department of the Central Government/State</p> | <p>Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Principal Secretary/Secretary (Labour)-<b>Chairperson</b></li> <li>2. Head of the Department Concerned-<b>Member</b></li> <li>3. Dy. Secretary (Services)-<b>Member</b></li> </ol> <p><b>Note:-</b> Senior most member of the Departmental Confirmation Committee shall act as Chairperson in case the notified Chairman of the Departmental Confirmation Committee happens to be junior to another member of the Departmental</p> | Not applicable  |

|  |                         |  |
|--|-------------------------|--|
| Government/UT territories shall ordinarily not exceed three years.<br><b>Note 2:</b><br>The maximum age limit for appointment by deputation/absorption shall be Not Exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications | Confirmation Committee. |  |
|--|-------------------------|--|

By the Order and in the Name of the  
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

ANIL KUMAR SINGH, Pr. Secy. (A.R.)